



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 41

जनवरी 16, 2026

संख्या 3

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2025	2026		घट - बढ़	
	जनवरी 10	जनवरी 02	जनवरी 09	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3554295	3890972	3928255	37283	373960
1.1 संचलन में नोट	3554284	3890959	3928244	37285	373960
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	13	11	-2	0
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	101	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	930602	775690	734446	-41244	-196156
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7814	6883	6357	-526	-1457
2.6 अन्य बैंक	50329	41676	42012	336	-8317
2.7 अन्य	455345	588368	709160	120791	253815
3 अन्य देयताएं	1926074	2806303	2810382	4079	884308
कुल देयताएं / आस्तियां	6924602	8110036	8230755	120719	1306153
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4643215	5007694	4995140	-12554	351925
2 सोना	583572	1003513	1017307	13794	433735
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1255213	1881318	1897291	15973	642078
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	14620	35042	13012	-22030	-1608
4.3 नाबार्ड	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	292649	20841	121580	100739	-171069
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	112555	130006	154646	24640	42091
5 खरीदे और धुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	20715	29558	29715	157	9000

* डाटा अनलिमिटेड है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 09, 2026		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
	को		सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6195896	687193	1437	392	483755	18866	815494	61322
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4966747	550866	-11838	-1124	115913	-16692	358815	14854
1.2 स्वर्ण	1017307	112830	13794	1568	349144	34654	433735	44947
1.3 विशेष आहरण अधिकार	168956	18739	-410	-39	13667	570	16095	958
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42886	4758	-108	-13	5031	334	6849	562

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली की व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 15, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं (सीआरआर) = ₹ 748477 करोड़	2026														
	जनवरी 01	जनवरी 02	जनवरी 03	जनवरी 04	जनवरी 05	जनवरी 06	जनवरी 07	जनवरी 08	जनवरी 09	जनवरी 10	जनवरी 11	जनवरी 12	जनवरी 13	जनवरी 14	जनवरी 15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	794732	781402	790590	792261	745547	774679	718474	727268	740085	732886	730447	728813	725042	749335	723481
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	106.2	104.4	105.6	105.8	99.6	103.5	96.0	97.2	98.9	97.9	97.6	97.4	96.9	100.1	96.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	दिसंबर 31, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
			3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	337365	28816	-2896	27951	25532	45790
1.2 बैंकों से उधार	84013	192	-44095	-27962	-50744	-54321
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	32844	-1402	-45846	2929	-43020	6238
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24859857	727987	1587365	2279256	1974550	2797266
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		3.0	7.8	10.1	9.8	12.7
2.1.1 मांग	3275198	355245	125719	577149	132068	705625
2.1.2 मीयादी	21584659	372742	1461645	1702149	1842481	2091641
2.2 उधारियां	825578	-16714	177158	-89670	196036	-129522
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1060702	-223230	59198	-930	59496	64076
3 रिज़र्व बैंक से उधार	168974	142406	21981	-142492	-26655	-75723
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	796081	-32736	7779	-168208	-6235	-232614
4.1 उपलब्ध नकदी	83464	2128	-167	1589	-5816	-5803
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	712617	-34864	7945	-169798	-419	-226811
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	271662	6806	18411	55861	14675	54924
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	36097	1820	5987	10259	1141	17755
5.3 बैंकों को अग्रिम	35293	2087	-7686	-4211	-3423	-5389
5.4 अन्य आस्तियां	69208	7792	-51577	1855	-36936	5361
6 निवेश	6884983	3626	489189	187055	605244	289236
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	8.0	2.8	10.1	4.4
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6884483	3580	489639	187185	605484	289234
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	500	46	-451	-130	-239	2
7 बैंक ऋण	20322515	627951	1310874	2078543	1781094	2579478
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		3.2	8.0	11.4	11.2	14.5
7 क.1 खाद्य ऋण	87972	4023	33058	51441	13000	31834
7 क.2 खाद्येतर ऋण	20234543	623929	1277816	2027102	1768093	2547644
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19916855	598847	1287745	2007004	1749406	2494807
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	96940	7008	11596	21977	19794	24877
7 ख.3 भुनाए गए	271619	20127	14461	50560	15283	59800
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13617	756	-861	-1505	-1854	-1934
7 ख.5 भुनाए गए	23485	1214	-2068	508	-1536	1928

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त पखवाड़ा #	2024		2025			
	दिसंबर 27		दिसंबर 15		दिसंबर 31	
	1		2		3	
अनुपात						
नकदी-जमाराशि अनुपात		4.66		3.43		3.20
ऋण-जमाराशि अनुपात		80.42		81.61		81.75
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात		82.58		93.51		91.19
निवेश-जमाराशि अनुपात		29.90		28.52		27.70
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात		30.82		11.82		8.21
			2025		2026	
मद/समाप्त सप्ताह	जनवरी 10	दिसंबर 12	दिसंबर 19	दिसंबर 26	जनवरी 02	जनवरी 09
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
नियत रिर्व रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
बैंक दर	6.75	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95	7.70/7.95	7.70/7.95
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	6.00/6.50	6.00/6.50
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिट औसत)	6.74	5.19	5.37	5.43	5.43	5.37
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.59	5.27	5.28	5.26	..	5.31
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.70	5.48	5.50	5.48	..	5.54
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.69	5.49	5.50	5.54	..	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.77	6.66	6.67	6.65	6.69	6.71
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.90	90.39	90.20	89.83	90.12	90.14
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	88.35	106.08	105.68	105.85	105.84	105.01
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.66	3.55	5.05	5.24	2.57	3.09
3-माह	3.62	2.93	3.63	3.52	2.90	3.38
6-माह	2.99	2.84	3.21	3.08	2.55	2.95

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाज़िर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, पखवाड़े की परिभाषा को वैकल्पिक शुक्रवार से संशोधित करके महीने के 15वें और अंतिम कैलेंडर दिन कर दिया गया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा [^]		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 31*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29800906	742566	2.6	1639604	6.6	2514317	9.2	2202187	9.0	3221442	12.1
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3828359	7883	0.2	49701	1.5	197607	5.4	203862	6.3	368382	10.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3423133	357593	11.7	123825	4.8	583111	20.5	130223	5.0	712421	26.3
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22434416	376674	1.7	1458985	7.7	1731907	8.4	1847523	10.0	2127270	10.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114999	416	0.4	7093	7.5	1692	1.5	20578	25.4	13370	13.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8750686	-63710	-0.7	297548	3.9	239860	2.8	628501	8.6	849567	10.8
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1545561	-67342		-192322		37455		21232		544670	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7205125	3633	0.1	489870	7.6	202405	2.9	607269	9.6	304897	4.4
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	21146517	639884	3.1	1326524	7.7	2078389	10.9	1819668	10.9	2617161	14.1
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	20322	8882		-3887		-17924		5439		9803	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	21126196	631002	3.1	1330411	7.7	2096313	11.0	1814229	10.9	2607359	14.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6585472	-103279	-1.5	233736	4.2	436945	7.1	463311	8.7	784233	13.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39895	175	0.4	2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6721664	-269496	-3.9	220455	4.0	244140	3.8	712380	14.3	1033731	18.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2769495	-41287	-1.5	101043	5.6	622068	29.0	97967	5.5	878318	46.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

[^]: 15 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन के साथ, मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े माह की 15वीं और अंतिम तारीख के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा [^]		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 31*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4799135	-26040	-0.5	31644	0.7	-30107	-0.6	217763	4.9	136046	2.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3923523	9834	0.3	49740	1.4	199075	5.3	198206	5.9	362321	10.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	760614	-36290	-4.6	-25189	-2.5	-230874	-23.3	-1021	-0.1	-239645	-24.0
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114999	416	0.4	7093	7.5	1692	1.5	20578	25.4	13370	13.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1545561	-67342		-192322		37455		21232		544670	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1529310	-54761		-207563		53850		1970		550217	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-15250	103120		239458		103765		5401		-208561	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-35572	94238		243345		121689		-38		-218364	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5998424	-103279	-1.7	83300	1.6	447477	8.1	286011	5.7	674042	12.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39895			2251	6.7	3264	8.9	3086	9.5	4212	11.8
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2769495	-41287	-1.5	101043	5.6	622068	29.0	97967	5.5	878318	46.4

[^]: 15 दिसंबर 2025 से संबंधित।

*: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत पखवाड़े की परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण आरक्षित मुद्रा के संबंध में ये आंकड़े महीने के 15वें एवम अंतिम दिन के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समावोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्बैशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जनवरी 05, 2026	-	-	14625	-	946	116861	-	-	-	-101290
जनवरी 06, 2026	-	-	-	-	139	118221	1470	-	50000	-66612
जनवरी 07, 2026	-	-	19156	-	3771	71870	1406	-	-	-47537
जनवरी 08, 2026	-	-	70968	-	334	84707	-	-	-	-13405
जनवरी 09, 2026	-	-	127210	-	342	162410	-	-	-	-34858
जनवरी 10, 2026	-	-	-	-	78	139495	-	-	-	-139417
जनवरी 11, 2026	-	-	-	-	72	141180	-	-	-	-141108

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024	2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	195.4	197.9	198.0	0.1	3.1	1.3
1.1 ग्रामीण	198.4	199.6	199.9	0.2	3.1	0.8
1.2 शहरी	192.0	195.9	195.9	0.0	3.2	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.7	148.2	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	155.7	155.9	157.0	0.7	1.4	0.8
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	193.8	192.1	194.2	1.1	4.7	0.2
3.2 ईंधन और बिजली	151.8	146.5	148.3	1.2	-2.5	-2.3
3.3 विनिर्मित उत्पाद	143.0	145.0	145.6	0.4	0.7	1.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा*	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 15, 2025	554968	60187	5.24 - 6.87
दिसंबर 31, 2025	568136	88512	5.25 - 6.87

*बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत पखवाड़े की परिभाषा में बदलाव के साथ, जमा प्रमाणपत्रों के लिए डेटा 1 से 15 दिसंबर 2025 और 16 से 31 दिसंबर 2025 के लिए प्रकाशित किया गया है।

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 15, 2025	473476	79654	5.81 - 12.12
दिसंबर 31, 2025	451053	59006	5.99 - 13.53

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 10, 2025	जनवरी 02, 2026	जनवरी 09, 2026
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17914	22478	31815
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1700	9620	1854
3 त्रिपक्षीय रेपो	653486	899496	771014
4 बाजार रेपो	536952	761503	654925
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	7738	12823	12461

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 09, 2026 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	7282	11832	108195	207095
182-दिवसीय	39165	49893	7744	183044
364-दिवसीय	63227	91341	43059	353359
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जनवरी 09, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 10, 2025 तक)	2024-25	2025-26 (जनवरी 09, 2026 तक)	2024-25 (जनवरी 10, 2025 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1182000	1153697	1400697	786334	804271	1039275
2. राज्य सरकारें	783453	658401	1073310	536011	450246	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।